

Zec

Chapter 3

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וְהִשְׁטָן और-शैतान H7854	יְהוָה यहोवा-के। H3068	מַלְאָךְ दूत H4397	לְפָנַי के-सामने H6440	עָמַד खड़ा-हुआ H5975	הַגָּדוֹל महान H3548	הַכֹּהֵן याजक H3091	וְהוֹשִׁיעַ यहोशूआ H0853	אֶת- को- H7200	וַיִּרְאֵנִי और-दिखाया-मुझे H2008	1
				עָמַד खड़ा-था H5975	לְשֹׁטְנוֹ: दोष-लगाने-के-लिए। H7853	וּמִיָּנֹו उसके-दाहिने H3225	עַל- के-ऊपर- H0413			

तब दूत ने मुझे महायाजक यहोशू को दिखाया। यहोशू यहोवा के दूत के सामने खड़ा था और शैतान यहोशू की दायीं ओर खड़ा था। शैतान वहाँ यहोशू द्वारा किये गए बुरे कामों के लिये दोष देने को था।

הַבְּחָר चुनने-वाला H0977	בָּךְ तुझे H3068	יְהוָה यहोवा H1605	וַיִּגְעַר और-डाँटे H7854	הַשָּׁטָן शैतान H3068	בָּךְ तुझे H1605	יְהוָה यहोवा H7854	יִגְעַר डाँटे H0413	הַשָּׁטָן शैतान H3068	אֶל- के-पास- H0559	יְהוָה यहोवाने H2088	וַיֹּאמֶר और-बोला H3808	2
				מֵאֲשֶׁר आग-से। H0784	מִצְּלָה निकाली-गई H5337	אֶרֶץ जलती-लकड़ी H0181	זֶה यह H2088	הֲלוֹא क्या-नहीं H3808	בִּירוּשָׁלַם यरूशलेम-को। H3389			

तब यहोवा के दूत ने कहा, “शैतान, यहोवा तुम्हें फटकारे। यहोवा तुम्हें अपराधी घोषित करे! यहोवा ने यरूशलेम को अपना विशेष नगर चुना है। उन्होंने उस नगर को बचाया—जैसे जलती लकड़ी को आग से बाहर निकाल दिया जाये।”

הַמַּלְאָךְ: दूत। H4397	לְפָנַי के-सामने H6440	וְעָמַד और-खड़ा-था H5975	צוֹאִים मैले। H6674	בְּגָדִים वस्त्र H5975	לְבָשׁ पहना-हुआ H3847	הָיָה था H1961	וַיְהוֹשִׁיעַ और-यहोशूआ H3091	3
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------------	---

यहोशू दूत के सामने खड़ा था और यहोशू गन्दे वस्त्र पहने था।

מֵעַלָּיו उस-पर-से। H6674	הַצֹּאִים मैले H5493	הַבְּגָדִים वस्त्र H0559	הֵסִירוּ उतारो H0559	לְאֹמְרוֹ कहते-हुए H6440	לְפָנָיו उसके-सामने H5975	אֶל- के-पास- H0413	וַיֹּאמֶר और-बोला H0559	וַיַּעַן और-उत्तर-दिया H0559	4
מִתְלַצְּוֹת: उत्सव-के-वस्त्र। H4254	אֶתְךָ तुझे H0853	וְהַלְבָּשׁ और-पहनाना-है-मुझे H3847	עֹוְלָה तेरे-अधर्म-को H5771	מֵעַלָּיךְ तुझ-पर-से H5771	הַעֲבַרְתִּי मैंने-हटा-दिया-है H5771	רָאה देख H7200	אֵלָיו उससे H0413	וַיֹּאמֶר और-बोला H0559	

तब अपने समीप खड़े अन्य दूतों से दूत ने कहा, “यहोशू के गन्दे वस्त्रों को उतार लो।” तब दूत ने यहोशू से बातें कीं। उसने कहा, “मैंने तुम्हारे अपराधों को हर लिया है और मैं तुम्हें नये वस्त्र बदलने को देता हूँ।”

עַל- के-ऊपर- H2889	הַטְּהוֹר शुद्ध H2889	הַצְּנִיף पगड़ी H6797	וַיְשִׁימוּ और-उन्होंने-रखी H6797	רֹאשׁוֹ उसके-सिर। H6797	עַל- के-ऊपर- H2889	טְהוֹר शुद्ध H2889	צְנִיף पगड़ी H6797	וַיְשִׁימוּ वे-रखें H6797	וַיֹּאמֶר और-मैंने-कहा H0559	5
				עָמַד खड़ा-था। H5975	יְהוָה यहोवा-का H3068	וּמַלְאָךְ और-दूत H4397	בְּגָדִים वस्त्र। H4397	וַיִּלְבְּשֵׁהוּ और-उन्होंने-पहनाना-उसे H3847	רֹאשׁוֹ उसके-सिर H3847	

तब मैंने कहा, “उसके सिर पर एक नयी पगड़ी बाँधो।” अतः उन्होंने एक नयी पगड़ी उसे बाँधी। यहोवा के दूत के खड़े रहते ही उन्होंने उसे नये वस्त्र पहनाये।

לְאֹמְרוֹ: कहते-हुए। H0559	בִּיהוֹשֻׁעַ यहोशूआ-को H3091	יְהוָה यहोवा-के H3068	מַלְאָךְ दूत H4397	וַיַּעַד और-गवाही-दी H4397	6
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------------	---

तब यहोवा के दूत ने यहोशू से यह कहा:

7 כֹּה-אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אִם-בִּדְרֹכַי תֵּלֵךְ וְאִם-מִשְׁמֵרַי תִּשְׁמֹר 7
 इस-प्रकार-कहता-है यहोवा सेनाओं-का यदि-मेरे-मार्गों-में तू-चलेगा और-यदि तू-रखेगा मेरी-आज्ञा को-
[H3541](#) [H0559](#) [H3068](#) [H0853](#) [H1870](#) [H3212](#) [H4931](#) [H8104](#)

וְגַם-אֶתְּךָ תְּרַיֵן אֶת-בֵּיתִי וְגַם-תִּשְׁמֹר אֶת-הַצָּרִי וְנִתְּנִי לְךָ
 और-भी-न्याय-करेगा तू को-तू-रखेगा और-भी मेरे-भवन को-और-मैं-दूंगा मेरे-आँगन।
[H1571](#) [H1777](#) [H0853](#) [H8104](#) [H1571](#) [H0853](#) [H5414](#)

מִהַלְכֵימֵי בֵּין הָעֵמֻדִים הָאֵלֶּה: 8
 चलने-वाले बीच खड़े-हुओं इन।
[H4108](#) [H0996](#) [H5975](#) [H0428](#)

सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा, “वैसे ही रहो जैसा मैं कहूँ, और मैं जो कहूँ वह सब करो और तुम मेरे मंदिर के उच्चाधिकारी होगे। तुम इसके आँगन की देखभाल करोगे और मैं अनुमति दूँगा कि तुम यहाँ खड़े स्वर्गदूतों के बीच स्वतन्त्रता से घूमो।

8 שָׁמַע-נָא הַכֹּהֵן וְיְהוֹשֻׁעַ הַגִּבּוֹר אֶתְּךָ וְרַעֲיָהוּ הַיְשָׁבִים לְפָנָיִךָ כִּי-אֲנֹשִׁי 8
 सुन-कृपया याजक यहीशूआ तू महान और-तेरे-साथी बैठने-वाले तेरे-सामने। क्योंकि-पुरुष
[H8085](#) [H4994](#) [H3091](#) [H3548](#) [H7453](#) [H3427](#) [H6440](#) [H0376](#)

מוֹפֵת מִהָמָה כִּי-הֲנִי מֵבִיא אֶת-עַבְדִּי צִמְחָא:
 चिन्ह-के वे। क्योंकि-देखो-मैं लाता-हूँ को-मेरे-दास अंकुर।
[H4159](#) [H1992](#) [H2009](#) [H0935](#) [H0853](#) [H5650](#) [H6780](#)

अतः यहोशू, तुम्हें और तुम्हारे साथ के लोगों को मेरी बातें सुननी होंगी। तुम महायाजक हो, और तम्हारे साथ के लोग दूसरों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और मैं सच ही, अपने विशेष सेवक को लाऊँगा, उसे शाख कहते हैं।

9 וְכִי-הִנְיָה הָאֶבֶן אֲשֶׁר נִתְּנִי מֵינִי-רֵכְחָהּ לְפָנָיִךָ יְהוֹשֻׁעַ עַל-אֶבֶן אַחַת שְׁבַעָה עִינֵימֵי 9
 क्योंकि-देखो पत्थर जिसे मैंने-रखा-है के-सामने यहीशूआ। के-ऊपर-एक पत्थर सात आँखें।
[H2009](#) [H0068](#) [H5414](#) [H6440](#) [H3091](#) [H0068](#) [H2009](#) [H7651](#)

הֲנִי דֹרְשָׁה מִפְתָּח נֶאֱמַר יְהוָה צְבָאוֹת וּמִשְׁתָּי אֶת-עוֹן הָאָרֶץ-הַהִיא
 देखो-मैं देखी-हूँ खोदता-हूँ उसकी-खुदाई यहोवा वचन-है सेनाओं-का और-मैं-हटाऊँगा को-अधर्म देश-उस
[H2009](#) [H6603](#) [H5002](#) [H3068](#) [H4185](#) [H0853](#) [H5771](#) [H0776](#) [H1931](#)

בְּיוֹם אֶחָד מֵ-בְּיָמַי 10
 मैं-दिन एक।
[H3117](#) [H0259](#)

देखो, मैं एक विशेष पत्थर यहोशू के सामने रखता हूँ। उस पत्थर के सात पहलू हैं और मैं उस पत्थर पर विशेष सन्देश खोदूँगा। वह इस तथ्य को प्रकट करेगा कि मैं एक दिन में इस देश के सभी पापों को दूर कर दूँगा।”

10 בְּיוֹם הַהוּא נֶאֱמַר יְהוָה צְבָאוֹת תִּקְרָא אִישׁ לְרַעְיָהוּ אֶל-תַּחַת נָפֹן 10
 मैं-दिन उस वचन-है यहोवा सेनाओं-का तुम-बुलाओगे प्रत्येक अपने-पड़ोसी-को के-नीचे-नीचे दाखलता
[H3117](#) [H1931](#) [H5002](#) [H3068](#) [H7121](#) [H0376](#) [H7453](#) [H0413](#) [H8478](#) [H1612](#)

וְאֶל-תַּחַת הָאֶבֶן: 11
 और-के-नीचे-नीचे अंजीर-का-पेड़।
[H0413](#) [H8478](#) [H8384](#)

सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, “उस समय, लोग बैठेंगे और अपने मित्रों एवं पड़ोसियों को अपने उद्यानों में आमन्त्रित करेंगे। हर व्यक्ति अपने अंजीर के पेड़ तथा अंगूर की बेल के नीचे अमन—चैन से रहेगा।”